



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2010/12 भाद्रपद, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin,
District Bilaspur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Anil Kumar aged 22 years son of Sh. Prem Lal, resident of Village & P.O. Chalehli, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh, (India).
2. Smt. Madhu, aged 23 years, d/o Shri Sohan Lal, resident of H. No. 71/A-24, Old Chandrawal, Delhi-110054, India . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under SECTION 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001, (49 of 2001).

Shri Anil Kumar, aged 22 years son of Sh. Prem Lal, resident of Village & P.O. Chalehli, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh, (India) and Smt. Madhu, aged 23 years, d/o Shri Sohan Lal, resident of H. No. 71/A-24, Old Chandrawal, Delhi-110054, India have filed an application alongwith affidavit in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001) that they have solemnized their marriage on 15-4-2009 at Shiv Temple Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) India, and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-9-2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 4-8-2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.*

ब अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अंजनी कुमारी पत्नी श्री संजीव कुमार, वासी घंघोट कलां, मौजा गारली, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . . सायला।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969.

उपरोक्त उनवानबाला में श्रीमती अंजनी कुमारी ने अपना आवेदन—पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि वंश का जन्म दिनांक 7-10-2010 को अपने ग्राम घंघोट कलां में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत मैहरे/बड़सर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सकी थी। सम्बन्धित पंचायत के विकास अधिकारी का प्रमाण—पत्र भी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे में किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 23-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा प्रार्थिया के आवेदन—पत्र पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देव राज शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री देव राज शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री अलबेल सिंह पठानिया पुत्र श्री अमर नाथ, वासी चोआ, तप्पा लोहडर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान : दरखास्त बगर्ज दरखास्त करने नाम कागजात माल।

श्री अलबेल सिंह पठानिया पुत्र श्री अमर नाथ, वासी चोआ, तप्पा लोहडर, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य दस्तावेज सहित गुजारा है कि उसका नाम गलती से मुहाल चोआ, तप्पा लोहडर के भू-राजस्व अभिलेख में रवेल सिंह गलत दर्ज किया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम दसवीं पास प्रमाण-पत्र व भूतपूर्व सैनिक प्रमाण-पत्र में अलबेल सिंह पठानिया दर्ज है।

अतः आम जनता को इस हि0 प्र0 राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम मुहाल चोआ के भू-राजस्व अभिलेख में रवेल सिंह उपनाम अलबेल सिंह पठानिया दर्ज करने में किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर दिनांक 23-9-2010 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23-8-2010 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

देव राज शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बड़सर,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री पादो पुत्र श्री चावसा, निवासी तिब्बतीयन सेटलमेंट नागचेन डीविजन बीड़, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री पादो पुत्र श्री चावसा, निवासी गांव चौगान, डाकखाना बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पोती डिकी वांगमो का जन्म दिनांक 8-10-1990 को मुहाल चौगान बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 24-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म चन्द चौहान,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री धर्म चन्द चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती गनी देवी पत्नी स्व0 श्री दसोरी राम, निवासी पंजोल डुघ, डाकघर गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गनी देवी पत्नी स्व0 श्री दसोरी राम, निवासी पंजोल डुघ, डाकघर गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति दसोरी राम की मृत्यु दिनांक 10-6-1999 को मुहाल पंजोल डुघ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 24-9-2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असातन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 24-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म चन्द चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री लेख राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 26/09

तारीख पेशी 13-10-2010

श्री वरडू राम पुत्र श्री सन्त राम पुत्र श्री सरदारी, निवासी मुहाल मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती :

1. सुदामा पुत्र सन्त राम, 2. जगदीश राम पुत्र त्रिडू, 3. शशी, 4. शुकरी उपनाम लता देवी, 5. गुरदेई, 6. रोशनी पुत्रियां त्रिडू, 7. मदन लाल पुत्र प्यार चन्द, 8. जमीत सिंह पुत्र प्यार चन्द, 9. गोमा देवी पुत्री प्यार चन्द, 10. रसालो देवी पुत्री नन्दू, सभी निवासी गांव मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, 11. कमला देवी पुत्री रसीला, निवासी मुहाल मूहडी, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नम्बर 10, खतौनी नम्बर 16 ता 20 खसरा, कित्ता 25, रकबा तादादी 0-62-77 हैव0, वाकया महाल मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इनको बार-बार समन करने पर भी यह हाजिर अदालत नहीं हो पा रहे हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण की तलवी हेतु

इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में बराए प्रकाशन हेतु भेजा जाता है तथा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असागतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर मुकद्दमा की पैरवी करें। वसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11-8-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री लेख राम, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 25/09

तारीख पेशी 13-10-2010

श्री वरडू राम पुत्र श्री सन्त राम पुत्र श्री सरदारी, निवासी मुहाल मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

सर्वश्री/श्रीमती :

1. सुदामा पुत्र सन्त राम, 2. बलदेव पुत्र मान सिंह, 3. शक्ति सिंह पुत्र मान सिंह, 4. रवि कुमार पुत्र मान सिंह, 5. कुशलां देवी पुत्री मान सिंह, 6. सुभद्रा देवी पुत्री मान सिंह, 7. विजय कुमार पुत्र बुधा राम, 8. कर्म सिंह पुत्र बुधा राम, 9. धर्म सिंह पुत्र बुधा राम, 10. गुग्गी पुत्री बुधा राम, 11. विमला देवी पत्नी बुधा राम, 12. मोहिन्द्र सिंह पुत्र साहिब सिंह, 13. शेखर पुत्र साहिब सिंह, 14. राज कुमारी पुत्री साहिब सिंह, 15. नीलम देवी पत्नी साहिब सिंह, 16. गैन्डा राम पुत्र दयाला, 17. रजिन्द्र सिंह पुत्र अजीत सिंह, 18. सुनीता देवी पुत्री अजीत सिंह, 19. रमो पुत्री अजीत सिंह, सभी निवासी मुहाल मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

विषय.—तकसीम भूमि खाता नम्बर 32, खतौनी नम्बर 74, खसरा नम्बर 344, रकबा तादादी 0-02-17 हैव0, स्थित मुहाल मतेहड़, मौजा नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त मुकद्दमा में उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इनको बार-बार समन करने पर भी यह हाजिर अदालत नहीं हो पा रहे हैं। अतः उक्त प्रतिवादीगण की तलवी हेतु इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में बराए प्रकाशन हेतु भेजा जाता है तथा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असागतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2010 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर मुकद्दमा की पैरवी करें। वसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11-8-2010 को जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri R. D. Harnote, Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

Case No. 25/NT/10

1. Shri Sunil Kumar s/o Shri Hem Raj, r/o V.P.O. Sakoh, Tehsil Dharamshala

2. Smt. Anjana Choudhary d/o Kikar Singh, r/o Sham Nagar, Dharamshala . . Applicant.

Versus

1. General Public,

2. The Registrar of Marriages, (Dharamshala).

Subject.—Registration of marriage under section 8 (4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant has made an application under section 8 (4) of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on (date) 2-3-2006 at (Place) Sakoh but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages, Sakoh.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the Registrar of marriages and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicant, they should appear before the undersigned in my court on (date) 8-10-2010 at (Place) Tehsil Office, Dharamshala at (time) 10.00 A. M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 25-8-2010.

Seal.

R. D. HARNOTE,
*Naib-Tehsildar-cum-Executive Magistrate,
Dharamshala, District Kangra, Himachal Pradesh.*

ब अदालत श्री आर० पी० शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या 28/NT/10

श्री कर्ण सिंह थापा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कर्ण सिंह थापा पुत्र श्री धमर सिंह थापा चान्दमारी, निवासी चान्दमारी, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अभिनव थापा की जन्म तिथि 2-5-1993 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत कजलोट में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आर0 पी0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 पी0 शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या 27/NT/10

श्री शौरभ थापा

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री शौरभ थापा पुत्र श्री सुरेश कुमार थापा चान्दमारी, निवासी चान्दमारी, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र शौरव थापा की जन्म तिथि 1-9-1989 है परन्तु एम0 सी0/ग्राम पंचायत कजलोट में उक्त तारीख पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे का जन्म पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

आर0 पी0 शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर० पी० शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा संख्या 26/NT/10

श्री लाल चन्द

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री लाल चन्द पुत्र श्री शेस राम, निवासी मैटी, मौजा घोरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता झांजरो देवी की मृत्यु दिनांक 21-12-1989 है परन्तु एम० सी०/ग्राम पंचायत घोरोह में पंजीकृत न हुई है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त झांजरो देवी की मृत्यु पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-10-2010 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।

आर० पी० शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Devinder Kumar s/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Chakkar, P.O. Gutkar, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Lata Devi d/o Sh. Bhag Singh, r/o Village Punahan, P.O. Beri, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur, H.P. (At present wife of Sh. Devinder Kumar s/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Chakkar, P.O. Gutkar, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

. . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Devinder Kumar s/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Chakkar, P.O. Gutkar, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.) and Smt. Lata Devi d/o Sh. Bhag Singh, r/o Village Punahan, P.O. Beri, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur, H.P. (At present wife of Sh. Devinder Kumar s/o Sh. Dharam Singh, r/o Village Chakkar, P.O. Gutkar, Tehsil Sadar Mandi, District Mandi (H. P.) have filed an

application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-7-2010 according to Hindu rites and customs at Shri Tarna Mata Temple, Mandi Town, Distt. Mandi (H. P.) and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26th September, 2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 26th day of August, 2010 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ध्यानू देवी उर्फ भीमू देवी पत्नी श्री ध्यान दास आयु 41 वर्ष, निवासी गांव गुरनाल, डाकघर जंजैहली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : पंचायत रिकार्ड में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थिनी श्रीमती ध्यानू देवी उर्फ भीमू देवी पत्नी श्री ध्यान दास, निवासी गांव गुरनाल, डाकघर जंजैहली, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उसने लिखा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत वूंग के रिकार्ड में ध्यानू देवी है तथा पहचान पत्र व बच्चों के प्रमाण-पत्रों में भीमू देवी दर्ज है। उसे ध्यानू देवी उर्फ भीमू देवी दोनों नामों से जाना जाता है। वह ग्राम पंचायत वूंग के रिकार्ड में अपना नाम ध्यानू देवी उर्फ भीमू देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से समस्त आम जनता तथा प्रार्थिनी के सगे-सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को ग्राम पंचायत वूंग के रिकार्ड में उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह इस अदालत में स्वयं अथवा किसी नियुक्त एजेंट के माध्यम से 15-9-2010 या इससे पूर्व हाजिर आकर अपना उजर व एतराज पेश करे, अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 27-8-2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, चच्चोट स्थित गोहर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश

प्रमिला देवी उर्फ सुमणु पुत्री कौलु राम, निवासी गांव सरोआ, तहसील चच्चोट, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थीन ।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थी ।

प्रार्थना—पत्र बावत नाम दुरुस्ती ।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रमिला देवी उर्फ सुमणु पुत्री कौलु राम, निवासी गांव सरोआ, तहसील चच्चोट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत सरोआ तथा राजस्व रिकार्ड महाल सरोआ में सुमनू दर्ज है तथा स्कूल प्रमाण—पत्र में प्रमिला दर्ज है। इसलिए वह ग्राम पंचायत सरोआ व राजस्व रिकार्ड महाल सरोआ में अपना नाम प्रमिला देवी उर्फ सुमणु पुत्री श्री कौलु राम दर्ज करना चाहती है। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावे।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे में कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 21—9—2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 27—8—2010 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
चच्चोट स्थित गोहर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

In the Court of Sub Divisional Magistrate Chopal, District Shimla, Himachal Pradesh

Date of institution : 23-8-2010

Date of next hearing : 5-10-2010

Sh. Dulla Ram son of Sh. Khetu Ram, Village Arnant, Pg. Satota, Tehsil Chopal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh

Versus

1. The General Public.
2. The Pardhan, Gram Panchayat Halau.

Application under section 13 (3) of Himachal Pradesh Birth and Death Act, 1969.

ORDER

Sh. Dulla Ram son of Sh. Khetu Ram, Village Arnant, Pg. Satota, Tehsil Chopal, Distt. Shimla, Himachal Pradesh appeared before me and submitted an application alongwith an affidavit

to effect his sons Mr. Manoj Kumar, born on 20-3-1984 and Mr. Sandeep Kumar, was born on 10-5-1986 and he could not get entered the date of birth entry with the local Registrar of Birth and Death Gram Panchayat and the same be ordered to be entered Gram Panchayat record.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents General Public/Gram Panchayat Halau for inviting the objection if any, if some one has any objection regarding registration of birth, he may appear before the undersigned court on or before 5-10-2010 failing which *ex-parte* proceeding will be initiated and the order of the registration of birth be announced.

Given under my hand and the seal of the court on dated 23rd August, 2010.

Seal.

Sd/-

*Sub Divisional Magistrate Chopal,
District Shimla, Himachal Pradesh.*

निर्वाचन विभाग

ब्लॉक नम्बर-38, एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला-9, 1 सितम्बर, 2010

संख्या 5-17/2007-ईएलएन.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर श्री प्रदीप कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक, निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला को अनुभाग अधिकारी, श्रेणी-I (राजपत्रित) के पद पर संशोधित वेतन संरचना (Revised pay structure) 10300-34800 + 5000 ग्रेड पे + 400/- रुपए सचिवालय भत्ता में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति के सहर्ष आदेश देती हैं।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी को निर्वाचन विभाग मुख्यालय, शिमला में दिनांक 1-9-2010 से रिक्त हुए अनुभाग अधिकारी के पद के विपरीत पदस्थापित करने के भी सहर्ष आदेश देती हैं।

पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे, जिसका एक वर्ष से अनाधिक और ऐसी अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

पदोन्नति के फलस्वरूप यदि उक्त अधिकारी मूल नियमों के नियम-22(I)(a) (1) के अपवाद खण्ड के अधीन पूर्व पद पर वेतन वृद्धि अर्जित करने के पश्चात् वेतन निर्धारण के इच्छुक हो तो उस दशा में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक मास के भीतर उन्हें विकल्प प्रस्तुत करना होगा अन्यथा इस अवधि के पश्चात् उपरोक्त नियम के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं होगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
सचिव (निर्वाचन)।

